



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 1978/श्रावण 30, 1900

No. 243]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1978/SRAVANA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1978

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st August, 1978

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

सांकांनि० 419 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 71.05/11(1) के अन्तर्गत आने वाली स्वर्ण को जब उनका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अन्तर्गत गठित भास्तीय स्टेट बैंक द्वारा या उस की ओर से भारत में आयात भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा सार्वजनिक सूचना सं० 59 आई०टी०सी० (पीएन)/78 तारीख 17 अगस्त, 1978 द्वारा अधिसूचित स्वर्ण आभूषण संपूर्ति स्कीम के अधीन, भारत से बाहर निर्यात किए गए स्वर्ण आभूषण में उपयोग किए गए स्वर्ण की संपूर्ति के लिए विक्रयार्थ किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उस पर उद्घरणार्थ समस्त सीमा-शुल्क से छूट देती है।

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts gold, falling under Heading No. 71.05/11(1) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, by or on behalf of the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), for being sold as replenishment for the gold used in the jewellery exported out of India, under the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme notified by the Government of India, in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Department of Commerce) in the Public Notice No. 59-ITC(PN)/78 dated the 17th August, 1978, from the whole of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule.

[सं० 164/फा सं० 355/124/78-सी शु० I]

[No. 164/F. No. 355/124/78-Cus-I.]

सांकांनि० 420(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96-सीमा-शुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“209, सं० 164 सीमा-शुल्क, तारीख 21 अगस्त, 1978।”

[सं० 165/फा०सं० 355/124/78-सीमा शुल्क-I]

एम० जयरामन, अवर सचिव

G.S.R. 420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial No. 208 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“209. No. 164-Customs, dated 21st August, 1978.”

[No. 165/F. No. 355/124/78-Cus-I.]

M. JAYARAMAN, Under Secy.